

Class Notes	
<b>Class:</b> सातवीं	<b>Topic:</b> अभ्यास कार्यपत्रक हम पंछी उन्मुक्त गगन के दादी माँ
<b>Subject:</b> हिंदी वसंत एवं व्याकरण	शब्द-विचार एवं उपसर्ग

## हम पंछी उन्मुक्त गगन के

प्रश्न 1. निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए-

प्र.क) 'हम पंछी उन्मुक्त गगन के' पाठ के रचयिता हैं-

- (a) भवानी प्रसाद मिश्र
- (b) सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
- (c) शिवमंगल सिंह 'सुमन'
- (d) महादेवी वर्मा

उत्तर-

प्र.ख) पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं?

- (a) व्याकुल
- (b) पिंजरे में बंद
- (c) उन्मुक्त
- (d) पुलकित

उत्तर-

प्र.ग) पिंजरे में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएँगे?

- (a) गा नहीं पाएँगे
- (b) उड़ नहीं पाएँगे
- (c) कुछ खा नहीं पाएँगे
- (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर-

प्र.घ) पक्षी किसकी सीमा पाना चाहते हैं?

- (a) नीले आसमान की
- (b) उड़ान की

- (c) अनार की
- (d) तारे की

उत्तर-

प्र. ड) 'क्षितिज' को कैसा बताया गया है?

- (a) सीमित
- (b) सीमाहीन
- (c) बंद
- (d) बड़ा

उत्तर-

प्रश्न 2. हर तरह की सुख-सुविधाएँ पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं?

प्रश्न 3. पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन-कौन सी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं?

प्रश्न 4. पक्षियों के लिए आज़ादी का क्या महत्त्व है? अपने विचार लिखिए।

## दादी माँ

प्रश्न 1 निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए-

प्र.क) दादी माँ क्यों उदास रहती थी?

- (a) पड़ोसियों से झगड़ा होने के कारण
- (b) अपने पुत्र द्वारा अपमानित करने के कारण
- (c) दादा जी की मृत्यु हो जाने के कारण
- (d) पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण

उत्तर-

प्र.ख) लेखक को खुश करने के लिए उनके मित्र क्या करते थे-

- (a) उनकी बातें सुनते थे
- (b) उनको हँसाते थे
- (c) छोट्टियों के बारे में बातें करते थे
- (d) छोट्टियों में घूमने जाते थे

उत्तर-

प्र.ग) दिन में बाहर चादर लपेटे कौन सोया था?

- (a) दादी माँ
- (b) लेखक का मित्र
- (c) लेखक
- (d) लेखक का बड़ा भाई किशन

उत्तर-

प्र.घ) दादी माँ की क्रियाकलापों से उसका क्या भाव झलकता था?

- (a) क्रूरता का
- (b) चिंता का भाव
- (c) स्नेह का भाव
- (d) पाखंडी का भाव

उत्तर-

प्र.ङ) 'परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते-सा नचाता है'-का अभिप्राय है।

- (a) सूखे पत्ते नाचते हैं
- (b) जीवन सूखे पत्ते जैसा है
- (c) परिस्थितियाँ सूखे पत्ते-सी होती हैं
- (d) जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियाँ आती-जाती रहती हैं

उत्तर-

**प्रश्न 2. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।**

स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक-एक बात आज कैसी-कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते-सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थीं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहतीं। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे।

प्र.क) दादी माँ किसकी मूर्ति प्रतीत होती थीं?

प्र.ख) दादी माँ क्यों उदास रहती थीं?

प्रश्न 3. दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति खराब क्यों हो गई थी?

प्रश्न 4. दादी माँ के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है?

## शब्द-विचार

प्रश्न 1. उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखिए।

प्रश्न 2. निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए-

सावन, तिनका, आग, आँख ।

प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए-

किस्मत, बीमार, माफ़ी, हार ।

## उपसर्ग

प्रश्न 1. उपसर्ग किसे कहते हैं?

प्रश्न 2. निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग-अलग करके लिखिए-

निषेध, संतोष, सहोदर, सम्मान ।

## पर्यायवाची, विलोम एवं श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द

प्रश्न 1. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में से गलत शब्द पर गोला (O) बनाइए -

क) अंग - हिस्सा, भाग, कामना, अंश

ख) घोड़ा - हय, तुरंग, अश्व, कपि

ग) आम - रसाल, सहकार, आमोद, सौरभ

घ) गर्व - घमंड, दर्प, अभिमान, अपमान

प्रश्न2. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए-

अथ, अस्थिर, आदर, आय ।

प्रश्न3. कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छाँटकर रिक्त स्थान में लिखिए-

क) .....महिमा, कहाँ जा रही हो? (अरि/अरी )

ख) मुझे बुधवार का .....बहुत पसंद है। (दिन/दीन )

ज्ञातव्य उपर्युक्त लेखन सामग्री घर पर तैयार की गई है ।